



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 87) पटना, सोमवार, 1 फरवरी 2016

सं0 पर्या० वन-15/2012-53(ई०)/प०व०
पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

28 जनवरी 2016

हरियाली मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की संकल्प संख्या-573 (ई०) दिनांक 08.10.2012 द्वारा कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पॉपलर तथा अन्य प्रजाति के कुल 06 करोड़ पौधे लगाने का निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की उत्तरजीविता के आधार पर क्रमशः रुपये 15/-, रुपये 10/- एवं रुपये 10/- प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

2. कृषि वानिकी योजना के तहत विगत वर्षों में किये गये वनरोपणों के निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि पौधों की उत्तरजीविता प्रथम वर्ष के बाद काफी कम हो जाती है। विश्लेषण के क्रम में यह पाया गया कि अनेक मामलों में प्रथम वर्ष के पश्चात उत्तरजीविता में भारी कमी का एक कारण प्रथम वर्ष में अधिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी हो सकता है। इस आलोक में पौधों की उत्तरजीविता अधिक होने के उद्देश्य से कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न वर्षों में दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि में संशोधन आवश्यक है।

3. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-573(ई०) दिनांक 08.10.2012 द्वारा निर्धारित, कृषि वानिकी योजना के तहत विभिन्न वर्षों में दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

- i. कृषक बंधुओं के द्वारा उनकी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत के दावे के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रथम वर्ष के अन्त में देय राशि ₹ 10/- प्रति पौधा होगी।
- ii. पौधारोपण के उपरांत दो वर्ष का पौधा होने पर ₹ 10/- प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।
- iii. पौधारोपण के उपरांत तीन वर्ष के पौधा होने पर ₹ 15/- प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 87-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>